

Welland Gouldsmith School
2nd Language Hindi 2020-21
Class- V
पाठ – ज्ञानी तोता

Answer Key

क. लगाव–प्रेम

हम भाई बहनों में बहुत लगाव है ।

विचित्र–अजीब

यह विचित्र कोविद-19 संक्रमण मनुष्य जाति के जीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है ।

मग्न–लीन

मग्न होकर पढ़ाई करने से ज्ञान की वृद्धि होती है ।

दंग–हैरान

एक 10 साल के बच्चे को गीता के श्लोक बिना रूके बोलता देख कर सभी सभासद दंग रह गए ।

निर्णय–फैसला

एक स्वयं सेवी संस्था ने मुसीबत की घड़ी में गरीबों का साथ देने का निर्णय लिया ।

मुक्त–आज़ाद

15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ ।

ख. समीर बाबू को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था । उन्होंने अपने बाग में फूल और फलों के अनेक पेड़-पौधे लगाए थे । वे अपने बाग में घूमना और हरियाली देखना पसंद करते थे । उन्हें पक्षियों से प्रेम था । वे पढ़ने के शौकीन थे । तोते के अनुसार वे भले और समझदार इंसान थे ।

ग. तोता बहुत सुंदर था । उसकी चोंच बहुत अदभुत थी और पंखों में चमक थी । तोता मनुष्य की तरह बातें करता था । वह समीर बाबू को चार ज्ञान की बातें बताया । वह इतना होशियार था कि वह समीर बाबू से खुद को आजाद करवाया और उन्हें समझाया कि मुसीबत आने पर उससे मुक्त होने का उपाय कैसे निकालना चाहिए ।

घ. ज्ञान की चार बातें यह थी कि -----

1. कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए ।
2. शत्रु कितनी भी मीठी बातें करे, परंतु उसपर विश्वास नहीं करना चाहिए ।
3. बीत चुकी बातों के बारे में सोच-सोचकर पछताना नहीं चाहिए ।
4. जैसी मुसीबत आए, उससे छुटकारा पाने का वैसा ही उपाय कर लेना चाहिए ।

च. रामू धीरे-धीरे पेड़ की ओर गया । उसने पीछे से जाकर तोतेपर अपना अंगोछा डालकर फुरती से उसे पकड़ लिया ।

गृह कार्य (Home work)

क. प्रश्न में ही उत्तर है ।

ख. किसने किससे कहा ?

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. इस तोते को पकड़ लाओ । | समीर बाबू ने रामू से कहा । |
| 2. आप बहुत भले आदमी हैं । | अद्भुत तोते ने समीर बाबू से कहा । |
| 3. परंतु मेरी भी एक शर्त है । | अद्भुत तोते ने समीर बाबू से कहा । |
| 4. अब चौथी बात बताओ । | समीर बाबू ने अद्भुत तोते से कहा । |

-----x-----